



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ 1946 (श0)  
(सं0 पटना 645) पटना, शुक्रवार, 19 जुलाई 2024

परिवहन विभाग

अधिसूचना  
18 जुलाई 2024

सं० 06/विविध (Carrying Capacity)-08-06/2020-9061—मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्न नियम बनाते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-212 के अध्यापेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रकाशित किया जाता है और उक्त प्रारूप के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक परिवहन विभाग के वेबसाइट [www.state.bihar.gov.in/transport](http://www.state.bihar.gov.in/transport) पर उपलब्ध रहेगा। तदोपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जायेगा।

प्रारूप

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-67(3) के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न प्रमंडलीय एवं जिला मुख्यालय (यथा पटना आदि शहरी क्षेत्र) में परिचालित ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के परिचालन को विनियमित करने संबंधी योजना दिनांक-..... की मध्यरात्रि से लागू किया जाता है।

योजना का उद्देश्य

- शहरों में ऑटो रिक्शा एवं ई0-रिक्शा का व्यवस्थित ढंग से परिचालन हो सकेगा।
- ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के कारण होने वाले जाम की समस्या का भी निदान संभव हो सकेगा।
- शहरों में व्यवस्थित ढंग से ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के परिचालन से वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा।
- ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा पर क्षमता के अनुसार यात्रियों को बैठाने से यात्रियों की यात्रा सुरक्षित होगी एवं उनके जान-माल की रक्षा हो सकेगी।

- (v) रात्रि प्रहर में ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के परिचालन में ऑटो चालकों द्वारा यातायात नियमों का अनुपालन करने (हेड लाईट/इंडिकेटर का प्रयोग, यातायात चिन्हों का पालन करना) से सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो सकेगी।
- (vi) ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के पार्किंग स्थल एवं ठहराव के स्थल का निर्धारण होने से यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध हो सकेगा।

#### योजना

- (i) शहरी क्षेत्रों में विभिन्न रूटों के बीच Conflict /Overlapping को न्यून करने एवं यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा एवं ई0-रिक्शा के सभी रूटों को जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन के लिए अलग-अलग Colour Code निर्धारित किया जायेगा।
- (ii) शहरी क्षेत्रों में सड़कों की Carrying Capacity के अनुसार ही ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा का निबंधन किया जायेगा।
- (iii) शहरी क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के कुल संभावित निर्धारण क्षमता का निर्धारित प्रतिशत रिजर्व ऑटो/ई0-रिक्शा के लिए सुरक्षित रहे। राज्य के प्रमंडलों एवं जिला मुख्यालय (यथा पटना एवं अन्य शहरी क्षेत्र) में रिजर्व ऑटो के तहत परिचालित ऑटो रिक्शा एवं ई0-रिक्शा पर अलग कलर कोड का स्टीकर अथवा पेंट अंकित किया जायेगा।
- (iv) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के अंतर्गत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को भी ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के परिचालन हेतु उक्त योजना के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भविष्य में QR Code भी विकसित करने पर परिवहन विभाग कार्य करेगा।
- (v) शहरी क्षेत्रों में निर्धारित प्रत्येक जोन में रूटों का Tagging करते हुए आवश्यकतानुसार संबंधित निकायों के समन्वय से ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किया जायेगा।
- (vi) शहरी क्षेत्रों में निर्धारित प्रत्येक जोन में रूटों का Tagging करते हुए आवश्यकतानुसार संबंधित निकायों के समन्वय से ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किया जायेगा।
- (vii) ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा पर QR Code अंकित किये जाने से QR Code को स्कैन करने पर ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा एवं चालक से संबंधित सभी जानकारीयों ट्रैफिक, अन्य प्रवर्तन पदाधिकारियों एवं सवारियों को सुविधापूर्वक प्राप्त हो जायेगा।
- (viii) ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के जोन एवं रूट का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सभी स्तर के रूटों को समाहित करते हुए आवश्यकतानुसार विभाजित किया जायेगा, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में सुविधा हो सके।
- (ix) ऑटो रिक्शा एवं ई0-रिक्शा को संबंधित जोन एवं रूट के साथ पुलिस थानों का Tagging किया जायेगा।

#### आवेदन चयन करने की प्रक्रिया

- (i) इस योजना में भाग लेने के लिए ऑटो चालकों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे तथा आवेदनों की समीक्षा की जायेगी। इस हेतु बनायी जा रही कमिटी इन आवेदनों के अंतिम निस्तारण के लिए सक्षम प्राधिकार होगी।
- (ii) अगर इस योजना में आवेदन की संख्या अत्यधिक होगी, तो इसके अन्तर्गत ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के स्वामी अथवा चालक Online आवेदन के माध्यम से किया जाये।
- (iii) ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के स्वामी जो स्वयं चालक एवं वैध ऑटो परमिटधारी भी हैं, उन्हें उक्त योजना के तहत वरीयता/प्राथमिकता दी जायेगी।
- (iv) किसी जोन अथवा रूट के लिए निर्धारित रिक्तियों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने के स्थिति में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

#### योजना का क्रियान्वयन

- (i) प्रमंडलों के मुख्यालय वाले जिलों में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल पदाधिकारी संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार होंगे।
- (ii) जिलों में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी होंगे।
- (iii) उक्त योजना के तहत जिला में ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा के परिचालन की समीक्षा कर संबंधित शहर के Carrying Capacity के आधार पर ऑटो रिक्शा/ई0-रिक्शा वाहनों की

संख्या, जोन, रूट के निर्धारण एवं इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नरूपेण कमिटी का गठन किया जायेगा :-

(क) जिला पदाधिकारी	—	अध्यक्ष
(ख) उप विकास आयुक्त	—	सदस्य
(ग) पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक ट्रैफिक	—	सदस्य
(घ) सिविल सर्जन	—	सदस्य
(ङ) जिला परिवहन पदाधिकारी	—	सदस्य
(च) अपर जिला परिवहन पदाधिकारी	—	सदस्य
(छ) मोटरयान निरीक्षक	—	सदस्य
(ज) ऑटो/ई0-रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि	—	आमंत्रित सदस्य

(iv) प्रमंडल के मुख्यालय वाले जिलों में इस कमिटी की अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे।

इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मार्ग/जोन के लिए अधिकृत ऑटो को पूर्व में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत किये गये/अन्तर परिलक्षित हो, तो उक्त पूर्व निर्गत परमिट को तदनुसार इस अंश तक संशोधित समझा जायेगा। तदनुसार संबंधित प्राधिकार के स्तर से प्रासंगिक पूर्व निर्गत परमिट को संशोधित किया जा सकेगा।

परिवहन विभाग इस संबंध में समय-समय पर अतिरिक्त दिशा-निदेश निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार होगा, जिसके की ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण एवं विनियमन में सहायता प्रदान की जा सकेगी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार अग्रवाल,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 645-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>